

Series ZZYY1/6



SET-3

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code 32/6/3

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

सामाजिक विज्ञान SOCIAL SCIENCE

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 32 (मानचित्र सहित) है।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 37 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 32 printed pages (Including Map).
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 37 questions.
- **Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

^



32/6/3

139 C

1



P.T.O.

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) प्रश्न-पत्र में कुल 37 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रश्न-पत्र में छः खण्ड-क, ख, ग, घ, ङ और च हैं।
- (ii) खण्ड-क में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iii) खण्ड-ख में प्रश्न संख्या 21 से 24 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (iv) खण्ड-ग में प्रश्न संख्या 25 से 29 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (v) खण्ड-घ में प्रश्न संख्या 30 से 33 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 120 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (vi) खण्ड-ङ में प्रश्न संख्या 34 से 36, केस आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ 3-3 उपप्रश्न हैं।
प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है।
- (vii) खण्ड-च में प्रश्न संख्या 37 मानचित्र आधारित है। यह प्रश्न 5 अंकों का है 37 (a) (इतिहास से 2 अंक) और 37 (b) (भूगोल के 3 अंक)
- (viii) इस प्रश्न पत्र में समग्र रूप से विकल्प का प्रावधान ही है। फिर भी उपप्रश्नों में विकल्प का प्रावधान है। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्पीय प्रश्न का उत्तर लिखना है।
- (ix) इसके अतिरिक्त प्रत्येक खण्ड और प्रश्न के साथ जहाँ भी आवश्यक है, पृथक से निर्देश दिए गए हैं।



General Instructions :

- (i) *Question paper contains 37 questions. All questions are compulsory. Question paper comprises six Sections – A, B, C, D, E and F There are 37 questions in the question paper.*
- (ii) *Section A – Question nos. 1 to 20 are MCQs of 1 mark each.*
- (iii) *Section B – Question nos. 21 to 24 are Very Short Answer Type Questions, carrying 2 marks each. Answer to each question should not exceed 40 words.*
- (iv) *Section C – Question nos. 25 to 29 are Short Answer Type Questions, carrying 3 marks each. Answer to each question should not exceed 60 words.*
- (v) *Section D – Question nos. 30 to 33 are Long Answer Type Questions, carrying 5 marks each. Answer to each question should not exceed 120 words.*
- (vi) *Section E – Question nos. from 34 to 36 are Case Based Questions with three sub questions and are of 4 marks each.*
- (vii) *Section F – Question no. 37 is map based, carrying 5 marks with two parts, 37 (a) from History (2 marks) and 37 (b) from Geography (3 marks).*
- (viii) *There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in a few questions. Only one of the choices in such questions have to be attempted.*
- (ix) *In addition to this, separate instructions are given with each section and question, wherever necessary.*



(बहुविकल्पीय प्रश्न)

1. निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय कंपनी के लिए एक प्रमुख लाभ है जब वह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन करता हो ? 1
- (A) बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनियों को धन एवं प्रौद्योगिकी प्रदान करती हैं ।
- (B) स्थानीय कंपनी के बोझ को कम करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी सभी निर्णय लेती है ।
- (C) बहुराष्ट्रीय कंपनी तेजी से उत्पादन के लिए स्थानीय कंपनी के सभी शेयर खरीदती है ।
- (D) बहुराष्ट्रीय कंपनी, स्थानीय कंपनी से श्रम और पूँजी निवेश के लिए कहती है ।
2. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ? 1
- (A) प्राथमिक क्षेत्रक साहूकार
- (B) द्वितीयक क्षेत्रक पुजारी
- (C) तृतीयक क्षेत्रक बैंक
- (D) विनिर्माण क्षेत्रक माली
3. निम्नलिखित में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है ? 1
- (A) स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक ।
- (B) बड़े कारखाने में काम करने वाला एक कर्मचारी ।
- (C) अस्पताल में इलाज करने वाला एक डॉक्टर ।
- (D) ठेकेदार के अधीन काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर ।



SECTION – A

(Multiple Choice Questions)

(20 × 1 = 20)

1. Which one of the following is a major benefit to a local company which goes for joint production with an MNC ? 1
- (A) MNC provides Money and Technology to local company.
- (B) MNC takes all decisions to reduce burden of local company.
- (C) MNC purchases all shares of local company for faster production.
- (D) MNC might ask for labour and capital investment from local company.
2. Which one of the following pairs is correctly matched ? 1
- (A) Primary Sector – Money Lender
- (B) Secondary Sector – Priest
- (C) Tertiary Sector – Bank
- (D) Manufacturing Sector – Gardener
3. Which one of the following is an activity of the unorganized sector ? 1
- (A) A teacher teaching in a school.
- (B) A worker going to work in a big factory.
- (C) A doctor treating patients in a hospital.
- (D) A daily wage labourer working under a contractor.

32/6/3

5



P.T.O.



4. निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेता है ?

1

- (A) किसी बैंक का प्रबंधक
- (B) गैर-सरकारी संस्था के सदस्य
- (C) स्थानीय साहूकार
- (D) स्वयं सहायता समूह के सदस्य

5. सत्ता के बँटवारे पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

1

- I. बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को सभी पर थोपना ।
- II. सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करना ।
- III. राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का बँटवारा ।
- IV. दलों के बीच सामाजिक-राजनीतिक विरोध की संभावना बढ़ाना ।

विकल्प :

- (A) I और III
- (B) II और III
- (C) I और IV
- (D) I और II

32/6/3

6



4. Who among the following takes the decision regarding saving and loan activities in the Self Help Groups (SHGs) ? 1

(A) Manager of a Bank

(B) Members of Non-Governmental Organisation (NGO)

(C) Local Money Lenders

(D) Members of Self-Help Group (SHG)

5. Consider the following statements on Power sharing and choose the correct option. 1

I. Imposing the will of majority community over others.

II. It helps in reducing the possibility of conflict between the social groups.

III. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order.

IV. It brings socio-political opposition among parties.

Options :

(A) I and III

(B) II and III

(C) I and IV

(D) I and II

32/6/3

7



P.T.O.



6. नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन, अभिकथन (A) और कारण (R) हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

1

अभिकथन (A) : लोकतंत्र में कामकाज के लिए राजनीतिक दल महत्वपूर्ण हैं।

कारण (R) : राजनीतिक दलों को बनाने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विकल्प :

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
(D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

7. स्तंभ-A का मिलान स्तंभ-B से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

1

स्तंभ - A (विषय)	स्तंभ - B (सूची)
I. ई-प्रोग्रामिंग	1. समवर्ती सूची
II. पुलिस	2. संघ सूची
III. शिक्षा	3. राज्य सूची
IV. रक्षा	4. अवशिष्ट सूची

विकल्प :

	I	II	III	IV
(A)	4	3	1	2
(B)	3	4	1	2
(C)	4	1	3	2
(D)	4	2	1	3

32/6/3

8



6. Two statements are given in the question below as Assertion (A) and reason (R). Read the statements and choose the correct option. 1

Assertion (A) : Political Parties are important in the functioning of democracy.

Reason (R) : The media plays an important role in the making of Political Parties.

Options :

- (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(C) (A) is true, but (R) is false.
(D) (A) is false, but (R) is true.

7. Match Column – A with Column – B and choose the correct option. 1

Column – A (Subjects)	Column – B (List)
I. E-Programming	1. Concurrent List
II. Police	2. Union List
III. Education	3. State List
IV. Defence	4. Residuary List

Options :

	I	II	III	IV
(A)	4	3	1	2
(B)	3	4	1	2
(C)	4	1	3	2
(D)	4	2	1	3

32/6/3

9



P.T.O.

8. निम्नलिखित देशों में से किसमें एक दलीय व्यवस्था है ? 1

- (A) चीन
- (B) भारत
- (C) पाकिस्तान
- (D) अमरीका

9. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए : 1

- I. भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है ।
- II. समुदायों को अपने धर्म को मानने, प्रचार और अभ्यास करने की स्वतंत्रता है ।
- III. राज्य समुदायों को उनके द्वारा चलाई जा रही शिक्षण संस्थानों को सहायता देकर मदद करता है ।
- IV. भारत धर्मतंत्र में विश्वास करता है ।

विकल्प :

- (A) I, II और III
- (B) I, II और IV
- (C) II, III और IV
- (D) I, III और IV

10. निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है ? 1

- (A) रूस
- (B) ऑस्ट्रेलिया
- (C) स्वीडन
- (D) भारत



-
8. Which one of the following countries have One Party System ? 1
- (A) China (B) India
(C) Pakistan (D) America

9. Read the following statements and choose the correct option : 1
- I. There is no official religion in India.
II. Communities have freedom to profess and practice their religion.
III. State helps communities by giving aid to educational institutions run by them.
IV. India believes in theocracy.

Options :

- (A) I, II and III (B) I, II and IV
(C) II, III and IV (D) I, III and IV
10. Which one of the following countries has the highest representation of women in their National Parliament ? 1
- (A) Russia
(B) Australia
(C) Sweden
(D) India



11. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

1

(नेता)	(भूमिका)
(a) विक्टर इमेनुएल II	(I) इटली का मुख्यमंत्री
(b) ज्युसेप मेत्सिनी	(II) यंग इटली आंदोलन
(c) ज्युसेप गैरीबॉल्डी	(III) सिसिली साम्राज्य पर विजय
(d) काउंट कावूर	(IV) एकीकृत इटली के राजा के रूप में घोषणा

विकल्प :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	I	IV	III	II
(B)	II	I	IV	III
(C)	IV	II	III	I
(D)	I	IV	II	III

12. निम्नलिखित में से किसने पहला साप्ताहिक समाचार-पत्र 'बंगाल गेजट' निकाला ?

1

- (A) बिपिन चन्द्र पाल
- (B) बाल गंगाधर तिलक
- (C) गंगाधर भट्टाचार्य
- (D) राजा राममोहन राय

13. 1840 से 1860 के बीच इंग्लैंड में रेलवे के विस्तार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बढ़ा ?

1

- (A) लोहा और इस्पात
- (B) जूट और कपास
- (C) एल्युमिनियम और बॉक्साइट
- (D) ताँबा और इस्पात

32/6/3

12



11. Match the following and choose the correct option.

1

(Leader)

(Role)

- | | |
|------------------------|---|
| (a) Victor Emmanuel II | I. Chief Minister of Italy |
| (b) Guiseppe Mazzini | II. Young Italy Movement |
| (c) Guiseppe Garibaldi | III. Conquered the Kingdom of Sicillies |
| (d) Count Cavour | IV. Proclaimed as king of Unified Italy |

(a) (b) (c) (d)

- | |
|-----------------|
| (A) I IV III II |
| (B) II I IV III |
| (C) IV II III I |
| (D) I IV II III |

12. Who among the following brought out 'Bengal Gazette; the first weekly newspaper ?

1

- (A) Bipin Chandra Pal
- (B) Bal Gangadhar Tilak
- (C) Gangadhar Bhattacharya
- (D) Raja Rammohan Roy

13. Which of the following industries increased with the expansion of railways in England from 1840s to 1860s ?

1

- (A) Iron and Steel
- (B) Jute and Cotton
- (C) Aluminium and Bauxite
- (D) Copper and Steel

32/6/3

13



P.T.O.



14. यूरोपीय लोग 19वीं शताब्दी में अमेरिका क्यों चले गए ? निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण की पहचान कीजिए :

1

- (A) गरीबी और बीमारियाँ
- (B) सोने की खानों की ओर दौड़
- (C) फ्रांसीसी क्रांति से बचने के लिए
- (D) वियतनाम युद्ध के परिणाम स्वरूप

15. निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल की पहचान कीजिए :

1

- यह एक मुख्य खाद्य फसल है ।
- यह खरीफ की फसल है ।
- इसके लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है ।
- इसके लिए 100 cm से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है ।

विकल्प :

- (A) गेहूँ
- (B) मक्का
- (C) चावल
- (D) ज्वार

16. स्तंभ-A का स्तंभ-B के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

1

स्तंभ - A	स्तंभ - B
(नदी)	(बाँध)
I. महानदी	1. सरदार सरोवर
II. नर्मदा	2. हीराकुड
III. चंबल	3. सलाल
IV. चेनाब	4. राणा प्रताप सागर

विकल्प :

	I	II	III	IV
(A)	4	3	2	1
(B)	3	4	1	2
(C)	2	1	4	3
(D)	1	2	3	4

32/6/3

14



14. Why did Europeans flee to America in 19th century ? Identify the correct reason from the following options :

1

- (A) Poverty and diseases
- (B) Due to gold rush
- (C) To escape from the French Revolution
- (D) As an aftermath of the Vietnam War

15. Identify the Crop with the help of the following information and choose the correct option.

1

- This is the staple food crop.
- This is a Kharif crop.
- It requires high temperature and high humidity.
- It requires above 100 cm of annual rainfall.

Options :

- (A) Wheat
- (B) Maize
- (C) Rice
- (D) Jwar

16. Match the Column – A with Column – B and choose the correct option :

1

Column – A		Column – B	
(River)		(Dam)	
I. Mahanadi	1. Sardar Sarovar		
II. Narmada	2. Hirakud		
III. Chambal	3. Salal		
IV. Chenab	4. Rana Pratap Sagar		

Options :

	I	II	III	IV
(A)	4	3	2	1
(B)	3	4	1	2
(C)	2	1	4	3
(D)	1	2	3	4

32/6/3

15



P.T.O.



17. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ?

1

- (A) जलोढ़ मिट्टी पश्चिमी राजस्थान
- (B) काली मिट्टी उत्तरी मैदान
- (C) शुष्क मिट्टी दक्कन का पठार
- (D) लैटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट

18. निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी 'विश्व विकास रिपोर्ट' तैयार करती है ?

1

- (A) विश्व बैंक
- (B) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (C) विश्व स्वास्थ्य संगठन
- (D) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

19. निम्नलिखित में से 'नीति आयोग' की पूर्ववर्ती सरकारी एजेंसी कौन सी थी ?

1

- (A) योजना आयोग
- (B) निर्वाचन आयोग
- (C) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- (D) संघ लोक सेवा आयोग

32/6/3

16



-
17. Which of the following pair is correctly matched ? 1
- (A) Alluvial Soil Western Rajasthan
- (B) Black Soil Northern Plain
- (C) Arid Soil Deccan Plateau
- (D) Laterite Soil Western Ghats
18. Which one of the following organizations prepares the 'World Development Report' ? 1
- (A) World Bank
- (B) International Monetary Fund
- (C) World Health Organisation
- (D) International Labour Organisation
19. Which one of the following is the preceding Government Agency of NITI Aayog ? 1
- (A) Planning Commission
- (B) Election Commission
- (C) University Grants Commission
- (D) Union Public Service Commission

32/6/3

17



P.T.O.



20. मान लीजिए कि एक स्थानीय क्षेत्र में चार परिवार हैं। यदि इन परिवारों की आय क्रमशः ₹ 6,000, ₹ 4,000, ₹ 7,000 और ₹ 3,000 हैं तो इस क्षेत्र की औसत आय क्या होगी ? सही विकल्प का चयन कीजिए।

1

(A) ₹ 5,000

(B) ₹ 3,000

(C) ₹ 2,000

(D) ₹ 6,000

खण्ड – ख

(4 × 2 = 8)

(अति लघु-उत्तरीय प्रश्न)

21. 1815 की 'वियना संधि' के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।

2

22. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार कैसे पैदा किये जा सकते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

2

23. द्वि-दलीय व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं की परख कीजिए।

2

24. (a) कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए किन्हीं दो प्रयासों की व्याख्या कीजिए।

1 × 2 = 2

अथवा

(b) रबी शस्य ऋतु की किन्हीं दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

1 × 2 = 2

32/6/3

18



-
20. Assume there are four families in a locality. If the income of each family is ₹ 6,000, ₹ 4,000, ₹ 7,000 and ₹ 3,000 then find out the average income of the locality from the following options : 1
- (A) ₹ 5,000 (B) ₹ 3,000
- (C) ₹ 2,000 (D) ₹ 6,000

SECTION – B

(Very Short Answer Type Questions) (4 × 2 = 8)

21. Mention any two objectives of the 'Treaty of Vienna' of 1815. 2
22. How to create more employment in rural areas ? Explain with examples. 2
23. Examine any two features of Bi-Party system. 2
24. (a) Explain any two efforts taken by the Government of India to modernise agriculture. 1 × 2 = 2

OR

- (b) Explain any two features of Rabi cropping season. 1 × 2 = 2

32/6/3

19



P.T.O.



खण्ड – ग

(5 × 3 = 15)

(लघु-उत्तरीय प्रश्न)

25. “19वीं सदी के अन्त में भारत में एक नयी तरह की दृश्य-संस्कृति आकार ले रही थी।” इस कथन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। 3
26. विकास के लिए धारणीयता का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 3
27. ऋषि की किन्हीं तीन शर्तों की व्याख्या कीजिए। 3
28. बेल्जियम सरकार द्वारा क्षेत्रीय विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए गए किन्हीं तीन उपायों की व्याख्या कीजिए। 3
29. (a) हम पर्यटन को व्यापार क्यों कहते हैं ? स्पष्ट कीजिए। 3
- अथवा
- (b) देश के आर्थिक विकास में परिवहन के महत्व की व्याख्या कीजिए। 3

खण्ड – घ

(4 × 5 = 20)

(दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न)

30. (a) लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों माना जाता है ? व्याख्या कीजिए। 5
- अथवा
- (b) तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार बेहतर है ? स्पष्ट कीजिए। 5
31. (a) ताजे पानी के औद्योगिक प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है ? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। 5
- अथवा
- (b) “किसी देश की आर्थिक शक्ति (उन्नति) विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है।” उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। 5

32/6/3

20



SECTION – C

(Short Answer Type Questions)

(5 × 3 = 15)

25. “By the end of 19th century a new visual culture took shape in India.”
Explain the statement with examples. **3**
26. Why is the issue of sustainability important for development ? Explain
with examples. **3**
27. Explain any three terms of Credit. **3**
28. Explain any three steps taken by the Belgium government to
accommodate regional differences. **3**
29. (a) Why do we call Tourism as a Trade ? Explain. **3**
- OR**
- (b) Explain the importance of Transportation in the economic
development of the country. **3**

SECTION – D

(Long Answer Type Questions)

(4 × 5 = 20)

30. (a) Why is Democratic Government considered as Legitimate
Government ? Explain. **5**
- OR**
- (b) How is Democracy a better form of government in comparison to
dictatorship ? Explain. **5**
31. (a) How can the industrial pollution of fresh water be reduced ? Explain
with examples. **5**
- OR**
- (b) “The economic strength of a country is measured by the development
of manufacturing industries.” Explain with examples. **5**

32/6/3

21



P.T.O.

32. (a) महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतांत्रिक समाज की आवश्यक शर्त है । इस कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए । 5

अथवा

- (b) 'लोकतंत्र लोगों को एक विषय की स्थिति से एक नागरिक की स्थिति में बदल देता है ।' इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए । 5

33. (a) 'वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है ।' कथन की परख कीजिए । 5

अथवा

- (b) विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विकासशील देशों द्वारा किए गए उपायों की परख कीजिए । 5

खण्ड – ड

(3 × 4 = 12)

(केस आधारित प्रश्न)

34. दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए : 4

भारत में विकेन्द्रीकरण

स्थानीय सरकारों की यह नयी व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है । पूरे देश में नगरपालिकाओं और ग्राम-पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है । यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है । स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मज़बूत हुई हैं । इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मज़बूत किया है । बहरहाल, इन सबके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियाँ कायम हैं । पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होतीं ।

- (34.1) भारतीय विकेन्द्रीकरण को लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रयोग क्यों माना जाता है ? 1
- (34.2) भारत में स्थानीय सरकार की संवैधानिक स्थिति ने किस प्रकार लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करने में सहायता की है ? विश्लेषण कीजिए । 1
- (34.3) भारत सरकार द्वारा विकेन्द्रीकरण के लिए उठाए गए, किन्हीं दो उपायों की व्याख्या कीजिए । 2

32/6/3

22



-
32. (a) Respect and equal treatment to women are necessary ingredients in a democratic society. Support the statement with examples. 5

OR

- (b) 'Democracy transforms people from the status of a subject into that of a citizen.' Support the statement with examples. 5

33. (a) 'Globalisation is a multi-dimensional concept.' Examine the statement. 5

OR

- (b) Examine the steps taken by the developing countries to attract foreign investment. 5

SECTION – E

(3 × 4 = 12)

(Case Based Questions)

34. Read the given source and answer the questions that follow : 4

DECENTRALISATION IN INDIA

This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc., all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly of Panchayats and people participate enthusiastically in it but meetings of gram sabhas are not held regularly.

- (34.1) Why is Indian decentralisation considered as the largest experiment in democracy ? 1
- (34.2) Analyse how constitutional status for local government has helped to deepen democracy in India ? 1
- (34.3) Explain any two steps taken by the Indian Government for decentralisation. 2

32/6/3

23



P.T.O.

35. दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर लिखिए :

4

औद्योगिक विकास

बीसवीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगीकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप, भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नयी स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे इसलिए भारत में मैन्चेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातोंरात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फ्रौज के लिए जूट की बोरियाँ, फ्रौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए।

पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हरेक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा।

(35.1) स्वदेशी आंदोलन क्या था ?

1

(35.2) भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 1900 से 1912 के बीच दुगना क्यों हो गया ?

1

(35.3) किन्हीं दो घटनाओं की व्याख्या कीजिए जिन्होंने भारत को पुनः बाजार प्राप्त करने में सहायता की ?

2

32/6/3

24



35. Read the given source and answer the questions that follow :

4

INDUSTRIAL DEVELOPMENT

By the first decade of the twentieth century a series of changes affected the pattern of industrialization in India. As the swadeshi movement gathered momentum, nationalists mobilised people to boycott foreign cloth. Industrial groups organised themselves to protect their collective interests, pressurising the government to increase tariff protection and grant other concessions. From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined since produce from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market. So industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. Cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. Yet, till the First World War, industrial growth was slow. The war created a dramatically new situation. With British mills busy with war production to meet the needs of the army, Manchester imports into India declined. Suddenly, Indian mills had a vast home market to supply. As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war needs : jute bags, cloth for army uniforms, tents and leather boots, horse and mule saddles and a host of other items. New factories were set up and old ones ran multiple shifts. Many new workers were employed and everyone was made to work longer hours. Over the war years industrial production boomed.

- (35.1) What was the Swadeshi Movement ? 1
- (35.2) Why did the Cotton piece goods production in India double between 1900 to 1912 ? 1
- (35.3) Explain any two events that helped India to regain its market. 2

32/6/3

25



P.T.O.



36. दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

4

समुदाय और संरक्षण

वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं हैं । हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं । भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है । सरिस्का बाघ रिज़र्व में राजस्थान के गाँवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बन्द करवाने के लिए संघर्षरत हैं । कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं । राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँवों के लोगों ने तो 1,200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोंदेव डाकव 'सोंचुरी' घोषित कर दी जिसके अपने ही नियम कानून हैं; जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं ।

(36.1) वन समुदायों से कैसे संबंधित हैं ?

1

(36.2) 'वन्य जीव संरक्षण अधिनियम' के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए ।

1

(36.3) वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समुदाय किस प्रकार काम कर रहे हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ।

2

खण्ड - च

(2 + 3 = 5)

(मानचित्र आधारित प्रश्न)

37. (a) भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा-मानचित्र पर दो स्थानों (A) और (B) को अंकित किया गया है । दी गई जानकारी की सहायता से उन्हें पहचानिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखिए ।

2

(A) वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ।

(B) वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था ।

32/6/3

26



36. Read the given source and answer the questions that follow :

4

COMMUNITY AND CONSERVATION

Conservation strategies are not new in our country. We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials, recognising that only this will secure their own long-term livelihood. In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. The inhabitants of five villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the Bhairodev Dakav 'Sonchuri', declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting, and are protecting the wildlife against any outside encroachments.

- (36.1) How are forests related with Communities ? 1
- (36.2) Explain the aim of 'Wildlife Protection Act. 1
- (36.3) How are communities working for the conservation of Wildlife ?
Explain with example. 2

SECTION - F

(Map Based Questions)

(2 + 3 = 5)

37. (a) Two places (A) and (B) have been marked on the given political outline Map of India. Identify them with the help of given information and write their correct names on the lines drawn near them. 2
- (A) The place where Indian National Congress Session was held in 1927.
- (B) The place where Mahatma Gandhi broke Salt law.

32/6/3

27



P.T.O.



(b) भारत के इसी रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** को उपयुक्त चिह्नों द्वारा अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए :

3

- (i) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा
- (ii) काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र
- (iii) हैदराबाद सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
- (iv) कांडला समुद्री पत्तन

नोट : निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 37 के स्थान पर है। (5 × 1 = 5)

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

- (37.1) उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अधिवेशन 1927 में हुआ था। 1
- (37.2) उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। 1
- (37.3) उस शहर का नाम लिखिए जहाँ इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। 1
- (37.4) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ काकरापारा परमाणु संयंत्र स्थित है। 1
- (37.5) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। 1
- (37.6) उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ कांडला समुद्री पत्तन स्थित है। 1



-
- (b) On the same outline Map of India locate and label any **three** of the following with suitable symbols. **3**
- (i) Indira Gandhi International Airport.
 - (ii) Kakrapara – Atomic Power Station.
 - (iii) Hyderabad – Software Technology Park
 - (iv) Kandla Sea Port

Note : The following questions are for the Visually Impaired

Candidates only in Lieu of Q. No. 37.

(5 × 1 = 5)

Attempt any **five** questions :

- (37.1) Name the place where the session of Indian National Congress was held in 1927. **1**
- (37.2) Name the place where Mahatma Gandhi broke the Salt law. **1**
- (37.3) Name the city where Indira Gandhi International Airport is located. **1**
- (37.4) Name the State where Kakrapara Nuclear plant is located. **1**
- (37.5) Name the State where Hyderabad Software Technology park is located. **1**
- (37.6) Name the State where Kandla Sea Port is located. **1**
-





32/6/3

30




प्रश्न सं. 37 के लिए मानचित्र
Map for Q. No. 37

यहाँ से काटें

Cut Here

यहाँ से काटें

Cut Here



32/6/3

31



32/6/3 **139 C**

32



Marking Scheme
Strictly Confidential
(For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
SOCIAL SCIENCE 32-6-3 (SUBJECT CODE 087)

General Instructions: -

1	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2	“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”
3	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6	Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
7	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.



8	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “ Extra Question ”.
10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11	A full scale of marks 80(example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13	<p>Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. ● Giving more marks for an answer than assigned to it. ● Wrong totaling of marks awarded on an answer. ● Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. ● Wrong question wise totaling on the title page. ● Wrong totaling of marks of the two columns on the title page. ● Wrong grand total. ● Marks in words and figures not tallying/not same. ● Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. ● Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) ● Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.
15	Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “ Guidelines for spot Evaluation ” before starting the actual evaluation.
17	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.



Marking Scheme
Social Science Set- 32/6/3

M.M.- 80

Q.NO	VALUE POINTS	Marks
Section A (Multiple Choice Questions)		20×1=20
1.	(A) MNCs can provide money and technology to local company (Pg.67)	1
2.	(C) Tertiary sector – Bank (Pg.20)	1
3.	(D) A daily wage labourer working under a contractor (Pg. 31)	1
4.	(D) Members of Self-Help Group (SHG) (Pg. 50)	1
5.	(B) II and III (Pg. 6)	1
6.	(C) (A) is true, but (R) is false. (Pg.48)	1
7.	(A) I-4, II-3, III-1, IV-2 (Pg.16-17)	1
8.	(A) China (Pg.50)	1
9.	(A) I,II and III (Pg.37-38)	1
10.	(C) Sweden (Pg. 31-34)	1
11.	(C) a-IV, b-II, c-III, d-I (Pg. 21)	1
12.	(C) Gangadhar Bhattacharya (Pg. 170)	1
13.	(A) Iron and Steel (Pg. 83)	1
14.	(A) Poverty and diseases (Pg.56)	1
15.	(C) Rice (Pg.38)	1
16.	(C) I – 2, II – 1, III– 4, IV– 3 (Pg. 26)	1
17.	(D) Laterite Soil -Western Ghats (Pg. 10)	1
18.	(A) World Bank (Pg. 8)	1
19.	(A) Planning Commission (Pg.29)	1
20.	(A) Rs 5000 (Pg. 9)	1
Section-B (Very Short Answer Type Questions)		4×2=8
21.	Mention any two objectives of the ‘Treaty of Vienna’ of 1815. (i) The Treaty of Vienna of 1815 was framed with the objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic wars.	2×1=2



	<p>(ii) The Bourbon Dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon.</p> <p>(iii) A series of States were set on the boundaries of France to prevent French expansion in future.</p> <p>(iv) The kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south.</p> <p>(v) Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. But the German confederation of 39 States that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony.</p> <p>(vi) The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon, and create a new conservative order in Europe.</p> <p>(vii) Any other relevant point.</p> <p>(Any two points to be explained) (Pg. No.10-11)</p>	
22.	<p>How to create more employment in rural areas? Explain with examples.</p> <p>(i) By introducing mega projects — new dams are constructed and canals are dug to irrigate many farms.</p> <p>(ii) By introducing tertiary facilities in an area.</p> <p>(iii) By identifying and promoting local industries and services.</p> <p>(iv) In villages near forest areas, we can start honey collection centres where farmers can come and sell wild honey.</p> <p>(v) By setting up industries that process vegetables and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside markets.</p> <p>(vi) By promoting tourism, or regional craft industry, or new services like IT.</p> <p>(vii) Any other relevant point.</p> <p>(Any two points to be explained.) (Pg.No. 34)</p>	2×1=2

23.	<p>Examine any two features of Bi-Party system.</p> <p>(i) In some countries, power usually changes between two main parties. Several other parties may exist, contest elections and win a few seats in the national legislatures.</p> <p>(ii) But only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called two-party system.</p> <p>(iii) The United States of America and the United Kingdom are examples of two-party system.</p> <p>(iv) Any other relevant point.</p> <p>(Any two points to be examined) (Pg. No. 50-51)</p>	2×1=2
24.	<p>(a) Explain any two efforts taken by the government of India to modernise agriculture.</p> <p>Considering the importance of agriculture in India, the Government of India made concerted efforts to modernise agriculture.</p> <p>(i) Establishment of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), agricultural universities, veterinary services.</p> <p>(ii) Animal breeding centres.</p> <p>(iii) Horticulture development.</p> <p>(iv) Research and development in the field of meteorology and weather forecast, etc.</p> <p>(v) Improving the rural infrastructure to strengthen and support agricultural sector.</p> <p>(vi) Several initiatives have been taken by Government of India under ‘The Atmanirbhar Bharat Abhiyan.’</p> <p>(vii) Any other relevant point.</p> <p>(Any two points to be explained) (Pg. 44)</p> <p style="text-align: center;">OR</p>	2×1=2



	<p>(b) Explain any two features of Rabi cropping season.</p> <p>(i) Rabi crops are sown in winter from October to December.</p> <p>(ii) These are harvested in summer from April to June.</p> <p>(iii) Some of the important rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard.</p> <p>(iv) These crops are grown in large parts of India,</p> <p>(v) States from the north and north-western parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops.</p> <p>(vi) Any other relevant point.</p> <p>(Any Two points to be explained) (Pg No.36)</p>	2×1=2
	<p>Section-C (Short Answer Type Questions)</p>	5×3=15
25.	<p>“By the end of 19th century a new visual culture took shape in India.” Explain the statement with examples.</p> <p>(i) With the setting up of an increasing number of printing presses, the visual images could be easily produced in multiple copies.</p> <p>(ii) Painters like Raja Ravi Varma produced images for mass circulation.</p> <p>(iii) Poor wood engravers who made woodblocks setup shop near the letterpresses and were employed by print shops.</p> <p>(iv) Cheap prints and calendars could be bought to decorate the walls of their homes or place of works.</p> <p>(v) These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics and society and culture.</p> <p>(vi) Any other relevant point.</p> <p>(Any two points to be explained.) (Pg. No. 123)</p>	3×1=3
26.	<p>Why is the issue of sustainability important for development? Explain with examples.</p> <p>(i) Sustainability is important for development because it results in protecting the people</p>	3×1=3



	<p>against pollution ensuring their quality of life and health.</p> <p>(ii) Conserving the environment which is necessary for development.</p> <p>(iii) Development can be sustained in any economy by using renewable resources such as groundwater, wind energy and solar energy.</p> <p>(iv) Groundwater is an example of renewable resources. These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain then we would be overusing this resource.</p> <p>(v) Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. Over usage of resources need to be checked.</p> <p>(vi) We do discover new resources that we did not know of earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time, even this will get (depleted/used)</p> <p>(vii) Any other relevant point</p> <p>(Any three points to be explained) (Pg. No. 14)</p>	
27.	<p>Explain any three terms of Credit.</p> <p>(i) Interest rates</p> <p>(ii) Collateral and document requirement</p> <p>(iii) Mode of repayment</p> <p>(iv) Any other relevant point.</p> <p>(Any three points to be explained.) (Pg. No.-45)</p>	3×1=3
28.	<p>Explain any three steps taken by the Belgium government to accommodate regional differences.</p> <p>(i) Constitutional provision which prescribes that the number of Dutch and French- speaking ministers shall be equal in the central government.</p> <p>(ii) Many powers of the Central government have been given to State governments of the two regions of the country. The State governments are not subordinate to the Central</p>	3×1=3



	<p>Government.</p> <p>(iii) Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the Central Government.</p> <p>(iv) Apart from the Central and the State Government there is a third kind of government. This 'Community government' is elected by people belonging to one language community- Dutch, French and German speaking- no matter where they live.</p> <p>(v) This government has the power regarding cultural, educational and language- related issues.</p> <p>(vi) Any other relevant point.</p> <p>(Any three points to be explained.) (Pg. No.4-5)</p>	
29.	<p>(a) Why do we call Tourism as a Trade? Explain.</p> <p>(i) Tourism in India has grown substantially over the last three decades.</p> <p>(ii) Foreign tourists' arrivals in the country witnessed an increase of foreign exchange.</p> <p>(iii) Tourism also promotes national integration, provides support to local handicrafts and cultural pursuits.</p> <p>(iv) It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage.</p> <p>(v) Foreign tourists visit India for heritage tourism, eco tourism, adventure tourism, cultural tourism, medical tourism and business tourism.</p> <p>(vi) Rajasthan, Goa, Jammu and Kashmir and temple towns of South India are important destinations of foreign tourists in India.</p> <p>(vii) There is vast potential of tourism development in the North-eastern States and the interior parts of Himalayas, but due to strategic reasons these have not been encouraged</p>	3×1=3

	<p>(viii) Any other relevant point.</p> <p style="text-align: center;">(Any three points to be explained) (Pg. No. 94)</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Explain the importance of Transportation in the economic development of the country.</p> <p>(i) Movement of goods and services can be over three important domains of our Earth i.e. land, water and air. Based on these, transport can also be classified into land, water and air transport.</p> <p>(ii) Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast-moving transport.</p> <p>(iii) Transport helps in the development of communication. Various means of communication help us in interacting with others in all the parts of the world. It has brought the world closer.</p> <p>(iv) Transport like railways help us in conducting various activities like business, sightseeing, pilgrimage, and transportation of goods over longer distances.</p> <p>(v) Pipelines are used for transporting crude oil and natural gas to refineries and factories.</p> <p>(vi) Waterways provide the cheapest means of transport and are useful for international trade.</p> <p>(vii) Air transport provides the fastest and most comfortable mode of transport.</p> <p>(viii) Any other relevant point.</p> <p style="text-align: center;">(Any three points to be explained) (Pg.No. 84)</p>	3×1=3
	<p>Section-D</p> <p>(Long Answer Type Questions)</p>	4×5=20



	<p>accountable to the people unlike dictatorship.</p> <p>(v) Government develops mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanisms to take part in decision-making whenever they think fit.</p> <p>(vi) Respect to and equal treatment of women is necessary ingredients of a democratic society.</p> <p>(vii) Non-democratic regimes often turn a blind eye to or suppress internal social differences. Ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democratic regimes.</p> <p>(viii) Any other relevant point.</p> <p>(Any five points to be explained) (Pg. No. 90)</p>	
31.	<p>(a) How can the industrial pollution of fresh water be reduced ? Explain with examples.</p> <p>(i) Minimising use of water for processing by reusing and recycling it in two or more successive stages.</p> <p>(ii) Harvesting of rainwater to meet water requirements</p> <p>(iii) Treating hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds.</p> <p>Treatment of industrial effluents can be done in three phases</p> <p>(a) Primary treatment by mechanical means. This involves screening, grinding, flocculation and sedimentation.</p> <p>(b) Secondary treatment by biological process.</p> <p>(c) Tertiary treatment by biological, chemical, and physical processes. This involves recycling of wastewater.</p> <p>(iv) Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally.</p> <p>(v) Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, and inertial separators. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories.</p>	5×1=5



(vi) Machinery and equipment can be used and generators should be fitted with silencers.

(vii) Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. The challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns.

(viii) Any other relevant point.

(Any five points to be explained)

(Pg. No. 76)

OR

(b) “The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries.” Explain with examples.

(i) Manufacturing industries not only help in modernising agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors.

(ii) Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India.

(iii) It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in Tribal and Backward areas.

(iv) Export of manufactured goods expands trade and commerce, and brings in much needed foreign exchange.

(v) Countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. India’s prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible.

(vi) Any other relevant point.

(Any five points to be explained) (Pg.No. 63)

5×1=5



	<p>(vii) Democracy accommodates differences of opinion and treats all with respect.</p> <p>(viii) In democracy all citizens have one vote which means absence of any domination and conflict.</p> <p>(ix) Democracy addresses social, economic and political problems of its citizens.</p> <p>(x) Citizens have to take advantage of the conditions and achieve their developmental goals in the democracy.</p> <p>(xi) Any other relevant point.</p> <p>(Any Five points to be explained) (Pg.No.90- 98)</p>	
33.	<p>(a) 'Globalisation is a multi-dimensional concept.' Examine the statement.</p> <p>(i) The dimensions of globalization are economic, political, cultural and ecological.</p> <p>(ii) Globalisation is a flow connecting integration of technology investment, goods and services.</p> <p>(iii) Liberalisation of foreign trade has resulted removal of trade barriers, Special Economic Zones(SEZ), Foreign Direct Investment(FDI), disinvestment, privatisation etc.</p> <p>(iv) Deregulation and openness of foreign trade and foreign investment vests with the political domain.</p> <p>(v) Working of MNCs at national and international levels has also promoted globalisation across borders.</p> <p>(vi) Greater choices have been provided to the consumers with improved quality and lower prices.</p> <p>(vii) Higher standards of living and better quality of life.</p> <p>(viii) Spread of new technologies, technical production methods and production standards have been improved.</p> <p>(ix) Working with WTO and IMF has become possible due to globalisation.</p> <p>(x) Foreign trade has resulted in connecting markets and integration with different</p>	5×1=5



countries.

(xi) Cultural relations with other countries have improved due to globalization.

(xii) Any other relevant point.

(Any Five points to be explained)

(Pg.No.55-70)

OR

(b) Examine the steps taken by the developing countries to attract foreign investment.

5×1=5

(i) Developing countries have taken special steps to attract foreign companies to invest in their Industrial zones.

(ii) Special Economic Zones (SEZs) have been setup to provide world class facilities: electricity, water, roads, and transport, and storage, recreational and educational facilities.

(iii) Companies who set up production units in the SEZs do not have to pay taxes for an initial period of five years.

(iv) Government has also allowed flexibility in the labour laws to attract foreign investment.

(v) Linkage of liberalization and privatization.

(vi) Instead of hiring workers on a regular basis, companies hire workers 'flexibly' for short periods when there is intense pressure of work. This is done to reduce the cost of labour for the company.

(vii) Foreign companies are demanding more flexibility in labour laws.

(viii) Liberalisation of foreign trade has resulted removal of trade barriers, Special Economic Zones(SEZ), Foreign Direct Investment(FDI), disinvestment, privatisation etc.

(ix) Deregulation and openness of foreign trade and foreign investment vests with the political domain.

(x) Working of MNCs at national and international levels has also promoted globalisation



	<p>across borders.</p> <p>(xi) Any other relevant point.</p> <p>Any five points to be Explained. (Pg No. 62-70)</p>	
	<p style="text-align: center;">Section-E</p> <p style="text-align: center;">(Case Based Questions)</p>	3×4=12
34.	<p style="text-align: center;">CASE BASED QUESTION: DECENTRALIZATION IN INDIA (Pg 26)</p> <p>(34.1) Why is Indian decentralization considered as the largest experiment in democracy? (1)</p> <p>(i) India's efforts in decentralisation represent one of the largest experiments in deepening democracy.</p> <p>(ii) India has a democratic structure for local governance</p> <p>(iii) There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities, etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world.</p> <p>(iv) Any other relevant point. (Any one point)</p>	1+1+2=4
	<p>(34.2) Analyse how constitutional status for local government has helped to deepen democracy in India. (1)</p> <p>(i) It has also increased women's representation and voice in our democracy.</p> <p>(ii) People to directly participate in decision-making.</p> <p>(iii) This has helped to inculcate a habit of democratic participation.</p> <p>(iv) Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government.</p> <p>(v) Any other relevant point, (Any one point)</p>	

	<p>(34.3) Explain any two steps taken by Indian government for decentralization. (1+1=2)</p> <p>(i) Establishment of panchayat in rural areas</p> <p>(ii) Establishment of municipalities in urban areas.</p> <p>(iii) 73rd and 74th amendment of the Indian constitution for the local self govt. and three tier democracy</p> <p>(iv) Any other relevant point.</p> <p>(Any two points)</p>	
35.	<p>CASE BASED QUESTION:INDUSTRIAL DEVELOPMENT (Pg 97)</p> <p>(35.1) What was the Swadeshi Movement? (1)</p> <p>(i) In the Swadeshi Movement, leaders appealed to people to use indigenous and national goods and to boycott foreign goods</p> <p>(ii) Any other relevant point</p> <p>(Any one point)</p>	1+1+2=4
	<p>(35.2) Why did the cotton piece goods production in India double between 1900 and 1912? (1)</p> <p>(i) Indian yarnexport to China declined since produce from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market.</p> <p>(ii) Industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. Hence cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912.</p> <p>(iii)Any other relevant point</p> <p>(Any one point)</p>	
	<p>(35.3) Explain any two events that helped India to regain its market. (1+1=2)</p> <p>(i) As the Swadeshi Movement gathered momentum, nationalists mobilised people to boycott foreign cloth</p> <p>(ii) Industrial groups organised themselves to protect their collective interests, pressurising the government to increase tariff protection and grant other concessions.</p>	



	<p>(iii) From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined.</p> <p>(iv) Outbreak of the First World War due to which Manchester imports into India declined.</p> <p>(v) New factories were set up and old ones ran multiple shifts.</p> <p>(vi) Any other relevant point</p> <p>(Any two points to be explained)</p>	
36.	<p>CASE BASED QUESTION:COMMUNITY AND CONSERVATION</p> <p>(Pg 20)</p> <p>(36.1) How are forests related with communities? (1)</p> <p>(i) It serves as the home to the traditional communities.</p> <p>(ii) It serves as a source of livelihood.</p> <p>(iii) Any other relevant point.</p> <p>(Any one point)</p>	1+1+2=4
	<p>(36.2) Explain the aim of ‘Wildlife Protection Act’. (1)</p> <p>(i) To prohibit hunting of wild animals; birds.</p> <p>(ii) Impose punishment for violating these rules/ laws.</p> <p>(iii) To protects wildlife against any outside encroachment.</p> <p>(iv) To provide security to animals that is not in danger of becoming extinct.</p> <p>(v) Any other relevant point.</p> <p>(Any one point)</p>	
	<p>(36.3)How are communities working for the conservation of wildlife. Explain with example. (1+1=2)</p> <p>(i) In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement.</p> <p>(ii) The inhabitants of five villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200</p>	



	<p>hectares of forest as the BhairodevDakav ‘Sonchuri’.</p> <p>(iii) Here they declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments.</p> <p>(iv) Any other relevant point</p> <p>(Any two points)</p>	
	<p>Section F</p> <p>(Map Based Questions)</p>	<p>2+3=5</p>
37.	<p>(a) (A) Madras (B) Dandi</p> <p>(b) Map Attached</p> <p>For questions of Visually Impaired Candidates only</p> <p>(37.1) Name the place where the session of India National Congress was held in 1927- MADRAS/ CHENNAI</p> <p>(37.2) Name the place where Mahatma Gandhi broke the Salt Law- DANDI</p> <p>(37.3) Name the city where Indira Gandhi International Airport is located- DELHI/ NEW DELHI</p> <p>(37.4) Name the State where Kakrapar Nuclear plant is located- GUJARAT</p> <p>(37.5) Name the State where Hyderabad Software Technology park is located- ANDHRA PRADESH/ TELANGANA.</p> <p>(37.6) Name the State where Kandla Sea Port is located- GUJARAT.</p>	<p>1+1=2</p> <p>1+1+1=3</p> <p>5×1=5</p>

32/6/1, 32/6/2, 32/6/3

प्रश्न सं. 10 के लिए मानचित्र
Map for Q. No. 10

----- यहाँ से काटें -----
Cut Here -----
----- यहाँ से काटें -----
Cut Here -----

